



(B)

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 391]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 28, 1969/अग्रहायण 7, 1891

No. 391] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 28, 1969/AGRAHAYANA 7, 1891

इस भाग में विषय पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ERRATUM

New Delhi, the 28th November 1969

S.O. 4782.—In the Election Commission's Notification No. 429/DL/69, dated the 13th November, 1969, published under S.O. No. 4629 in the Gazette of India, Extraordinary Issue No. 381, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 13th November, 1969—

In the first line for the figures "138" read "13B"

[No. 429/DL/69.]

R. D. SHARMA, Under Secy.

(1471)

